



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

PD-120  
RM. 5  
CPB. 115

सं. 42]  
No. 42]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अप्रैल 1, 2004/चैत्र 12, 1926  
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2004/CHAITRA 12, 1926

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2004

आ.अ. 55(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग तारीख 23-3-2004 की अपनी अधिसूचना सं. 434/कर्ना./2004 (2) में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, स्तम्भ (1) की विशिष्ट प्रविष्टियों के सामने नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में यथा दर्शित नीचे के स्तम्भ (2) में दिखाई गई प्रविष्टियां प्रतिस्थापित/जोड़ी जाएंगी।

सारणी

क्रम सं.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
(1)		(2)
1.	27—बागलकोट	5. मुख्य योजना अधिकारी, जिला पंचायत, धारवाड़
2.	24—धारवाड़ उत्तरी	7. उप सचिव, जिला पंचायत, गदाग
3.	19—हसन	1. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हसन
4.	19—हसन	7. उप सचिव-I, जिला पंचायत, हसन
5.	25—बेलगाम	5. उप निदेशक, महिला और बाल विकास, बेलगाम
6.	26—चिक्कोडी (अ.जा.)	7. उप निदेशक, सहकारी लेखा-परीक्षा, बेलगाम

[सं. 434/कर्ना./2004(2)]

आदेश से,

तपस कुमार, सचिव

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

## NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2004

O. N. 55(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section 1 of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission, hereby makes the following further amendments in its Notification No. 434/KT/2004(2) dated 23rd March, 2004, namely :—

In place of the existing entries shown in column (2) of the Table appended to the said Notification, against the specific entries of column (1) thereof, as mentioned in the Table below in column (1), the entries shown in column (2) below shall be substituted/added :—

TABLE

Sl. No.	Number and Name of Parliamentary Constituencies	Assistant Returning Officer
	(1)	(2)
1.	27—Bagalkot	5. Chief Planning Officer, Zilla Panchayat, Dharwad
2.	24—Dharwad North	7. Deputy Secretary, Zilla Panchayat, Gadag
3.	19—Hassan	1. Deputy Registrar of Cooperative Societies, Hassan
4.	19—Hassan	7. Deputy Secretary-I, Zilla Panchayat, Hassan
5.	25—Belgaum	5. Deputy Director, Women and Child Development, Belgaum
6.	26—Chikodi (SC)	7. Deputy Director of Cooperative Audit, Belgaum

[No. 434/KT/2004(2)]

By Order,

TAPAS KUMAR, Secy.